

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 13 फ़रवरी 2023

प्रश्न -1

दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में वेस्ट टू एनर्जी और बायो-मिथेनेशन प्रोजेक्ट्स विकसित करने के लिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालयने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज़ापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- B) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- C) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- D) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

सही उत्तर: A

'ग्रीन ग्रोथ' एजेंडे को आगे बढ़ाने के हिस्से के रूप में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वेस्ट टू एनर्जी और बायो-मिथेनेशन प्रोजेक्ट्स विकसित करने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज़ापन पर हस्ताक्षर किए।

प्रश्न-2

किस निम्नलिखित देश के फुटबॉलर राफेलजेवियर वाराने ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलसे अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है?

- A) स्पेन
- B) पुर्तगाल
- C) फ़्रांस
- D) अर्जेंटीना

सही उत्तर: C

फ़्रांस के 2018 विश्व कप विजेता और पिछले साल उप विजेता टीम के सदस्य राफेल वाराने ने 29 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 13 फ़रवरी 2023

प्रश्न-3

'मेरो रुख मेरो संतति' (एक पेड़ लगाओ, एक विरासत छोड़ो) पहल निम्नलिखित में से किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई थी?

- A) असम
- B) झारखंड
- C) सिक्किम
- D) पश्चिम बंगाल

सही उत्तर: C

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक पहल शुरू की जिसके तहत हिमालयी राज्य में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 100 पेड़ लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि 'मेरो रुख मेरो संतति' (एक पेड़ लगाओ, एक विरासत छोड़ो) नाम की इस पहल का उद्देश्य बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में पेड़ लगाकर माता-पिता, बच्चों और प्रकृति के बीच संपर्क को मजबूत करना है।

प्रश्न-4

पाम ऑयलकी खेती के तहत विकास और क्षेत्र विस्तार के लिए नागालैंड सरकार ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) डाबर
- B) ITC
- C) नेस्ले
- D) पतंजलि आयुर्वेद

सही उत्तर: D

नागालैंड सरकार और पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयल पाम (NMEO-OP)के तहत नागालैंड के जोन- 2 (मोकोकचुंग, लॉगलेंग और मोन जिलों) के लिए पाम ऑयलकी खेती और प्रसंस्करण के तहत विकास और क्षेत्र विस्तार के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 13 फ़रवरी 2023

प्रश्न-5

'पे एज यू ड्राइव' वाहन बीमा पॉलिसी _____ द्वारा शुरू की गई है।

- A) HDFC
- B) LIC
- C) न्यू इंडिया एश्योरेंस
- D) भारतीय स्टेट बैंक

सही उत्तर: C

न्यू इंडिया एश्योरेंस (NIA) ने 'पे एज यू ड्राइव' (PAYD) पॉलिसी लॉन्च की है, जो एक व्यापक मोटर इन्शुरन्स पॉलिसी प्रदान करती है जो वाहन के उपयोग के आधार पर प्रीमियम लेती है। पॉलिसी के दो घटक हैं - थर्ड पार्टी कवर और ओन-डैमेज कवर।

प्रश्न-6

किस निम्नलिखित मंत्रालयकेसचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया है?

- A) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय
- B) संस्कृति मंत्रालय
- C) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- D) वित्त मंत्रालय

सही उत्तर: C

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिवश्री अल्केश कुमार शर्मा ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 400 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 13 फ़रवरी 2023

प्रश्न-7

निम्नलिखित में से कौन सा देश 2027 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा?

- A) चीन
- B) भारत
- C) सऊदी अरब
- D) दक्षिण कोरिया

सही उत्तर: C

मनामा के गल्फ कन्वेंशन सेंटर में 33वीं एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) कांग्रेस के दौरान सऊदी अरब को फुटबॉल के 2027 एशियाई कप के मेजबान के रूप में पुष्टि की गई थी।

प्रश्न-8

निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा?

- A) कतर
- B) भारत
- C) फ़्रांस
- D) चीन

सही उत्तर: A

एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) ने घोषणा की है कि 2023 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट कतर में आयोजित किया जाएगा। एशियाई कप हर चार साल में आयोजित किया जाता है। कतर ने टूर्नामेंट का पिछला संस्करण जीता था , जिसे 2019 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित किया गया था।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 13 फ़रवरी 2023

प्रश्न-9

निम्नलिखित में से किसने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल शुरू की है?

- A) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
- B) जी. किशन रेड्डी
- C) सर्बानंद सोनोवाल
- D) गृह मंत्री अमित शाह

सही उत्तर: B

पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (DONER) जी. किशन रेड्डी ने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल शुरू की और हाल ही में नई दिल्ली में इसके लोगो का अनावरण किया , जिससे भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भव्य योजनाओं और गतिविधियों के वर्ष की शुरुआत हुई।

प्रश्न-10

निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पांचवें नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है?

- A) पश्चिम बंगाल
- B) राजस्थान
- C) ओडिशा
- D) झारखंड

सही उत्तर: D

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर में 450 करोड़ रुपये के नैनो यूरिया संयंत्र और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) की टाउनशिप की आधारशिला रखी है। यह भारत का पांचवां नैनो यूरिया संयंत्र होगा।